

प्रेस नोट

एसओजी टीम तथा थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा चोरी की घटना का किया गया सफल अनावरण, एक सफेद रंग की इनोवा क्रिस्टा तथा दो पुलिंदा जहरीली गोली अल्प्रेक्स का चूर्ण बरामद करते हुए 02 अभि०गण को गिरफ्तार किया गया*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं संकल्प शर्मा के निर्देशन में चलाये जा रहे वांछित / वारंटी अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 03-10-2020 को एसओजी टीम तथा थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चैकिंग अभियान के दौरान 02 अभि०गण 1- विनोद सिंह पुत्र शिवराज सिंह निवासी ग्राम नगला निंबोली थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं 2- विजय चौहान पुत्र तेजवीर सिंह निवासी विक्रमपुर थाना सिविल लाइन जनपद इटावा को मय एक अदद इनोवा क्रिस्टा गाड़ी , तथा मुकदमें से संबंधित 02 पुलिंदा नशीला पाउडर व 02 फर्जी आधार कार्ड के साथ कादरचौक रोड से सजनी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया । स्थानीय थाना ने उपरोक्त अभि०गण द्वारा पूछताछ पर जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि हम लोग जहर खुरानी व नशीले पाउडर द्वारा चालकों को बेहोश कर उनकी संपत्ति गाड़ी मो०सा० आदि लूट लेते थे । गिरफ्तारी के समय एक फर्जी नंबर प्लेट वाहन डीएल 8 सीए०क्यू 5095 को बरामद किया गया तथा वाहन का इंजन नंबर व चेचिस नंबर का मिलान किया गया, तो उपरोक्त गाड़ी मु०अ०सं० 305/2020 धारा 328/379 भादवि से संबंधित पायी गयी जोकि अभि०गण द्वारा लूटी गयी थी। जिसे स्थानीय थाना द्वारा बरामद किया गया । जिसके सम्बन्ध में स्थानीय थाना पर मु०अ०सं० 318/2020 , 319/2020 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट तथा मु०अ०सं० 305/2020 में धारा 411/420/467/468/471 की वृद्धि की गयी । उपरोक्त अभि०गण को मा० न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार बदायूं भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 1- विनोद सिंह पुत्र शिवराज सिंह निवासी ग्राम नगला निंबोली थाना सिविल लाइन जनपद इटावा,
- 2- विजय चौहान पुत्र तेजवीर सिंह निवासी विक्रम पुर थाना सिविल लाइन जनपद इटावा ।

अभि०गण का आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु०अ०सं० 305/2020 धारा 328/379/411/420/467/468/471 भादवि
- 2- मु०अ०सं० 318/2020,319/2020 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट

बरामदगी का विवरण:-

- 1- एक सफेद रंग की इनोवा क्रिस्टा जिस पर फर्जी नंबर प्लेट DL8CAQ5095
02. दो पुलिंदा जहरीली गोली अल्प्रेक्स का चूर्ण ।

गिरफ्तार/अनावरण करने वाली पुलिस टीम -

1. निरीक्षक श्री रामगोपाल शर्मा प्रभारी सर्विलांस मय टीम
2. निरीक्षक श्री धीरज सिंह सोलंकी प्रभारी एसओजी मय टीम
3. आकाश कुमार चौकी इंचार्ज शेखुपुर थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं
4. उप निरीक्षक अर्जुन सिंह थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं
5. कांस्टेबल अरविंद कुमार थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं
6. कांस्टेबल 531 श्रीकांत थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं
7. कांस्टेबल 598 सुवेद्र कुमार थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं

सोशल मीडिया सेल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

जनपद बदायूं